



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022020-216344
CG-DL-E-25022020-216344

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]
No. 723]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2020/ फाल्गुन 1, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020/ PHALGUNA 1, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

का.आ. 792(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1013 (अ) तारीख 22 फरवरी 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में रा.रा-16 (पुराना रा.रा.-5) के कि.मी. 62.000 से कि.मी.136.500 (चंडीखोल – भद्रक सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने /छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16 मार्च 2019 " को "प्रमेय" और "धारित्रि" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में रा.रा -16(पुराना रा.रा.-5) के कि.मी. 62.000 से कि.मी.136.500 (चंडीखोल - भद्रक सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: भद्रक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भण्डारीपोखरी					
गांव का नाम: बेणिपुर - 117					
1	381	सरकारी	गोचर	0.0898	राखित ()
2	389	सरकारी	गोचर	0.0688	राखित ()
गांव का नाम: भूतिआ - 77					
3	111	सरकारी	ऊर्णनात योजना योग्य	0.0202	रक्षित ()
4	118	सरकारी	ऊर्णनात योजना योग्य	0.1416	रक्षित ()
5	119	सरकारी	बस्ती योग्य	0.1619	रक्षित ()
6	177	सरकारी	बस्ती योग्य	0.1943	राखिता ()
7	85	सरकारी	नयनजोरी	0.0405	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ()
गांव का नाम: दक्षिणबाड़-42					
8	1142	सरकारी	रास्ता	0.0202	पब्लिक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ()

9	1162	सरकारी	नयनजोरी	0.0081	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
10	1163	सरकारी	कैनाल	0.0081	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
11	1267	सरकारी	पतित	0.0028	अबदया जोग्या अनबाडी ()
12	1269	सरकारी	नयनजोरी	0.0081	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
13	1270	निजी	जलासय -२	0.0101	हरमोहन मोहपात्रा S/O सिबा चरण प्रहराज ()
14	1275	सरकारी	बंधा	0.0024	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
15	1276	सरकारी	कैनाल	0.0178	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
16	1277	सरकारी	बंधा	0.0081	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
17	1282	सरकारी	नयनजोरी	0.0061	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
18	1283	सरकारी	नयनजोरी	0.0061	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
19	1284	सरकारी	गोचर	0.0113	राखित ()
20	1344	सरकारी	पतित	0.002	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
21	1345	निजी	सरद जल -२	0.0121	जगबंधु देश ,गंगाधर देश ,नरसिंघ चरण देश S/O दुर्याधन देश ,रमेश चंद्र देश S/O गंगाधर देश ,मिनराणी नायक W/O रबिन्द्र नायक ,उमेश चंद्र देश S/O गंगाधर चंद्र देश ,प्रतिमा बारीक W/O उत्तम कुमार बारीक ,ममी साहू W/O मधुसूदन साहू ,पद्मवती बेहेरा W/O संतोष कुमार साहू ()
22	1347	निजी	सरद जल -२	0.004	संतोष कुमार देश S/O गयाधर देश

					,निरुपमा देश W/O संतोष कुमार देश ,बीनापानी देश D/O रत्नाकर देश,रमेश चंद्र देश S/O गंगाधर देश ()
23	1551	निजी	घरबारी	0.0336	जयश्री नायक W/O कुमारवर नायक ()
24	1553	निजी	घरबारी	0.0162	अभिराम स्वयं S/O महेंद्र स्वयं ,किस्मत ८ एना ,जयश्री नायक W/O कुमारवर नायक ,किस्मत ८ एना ()
25	1554	निजी	सरद जल -१	0.0081	रासबिहारी साहू S/O बानछानिदि साहू ()
26	1603	सरकारी	नयनजोरी	0.0053	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
27	1604	सरकारी	कैनाल	0.0069	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
28	1605	सरकारी	बंधा	0.004	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
29	1607	निजी	घरबारी	0.0567	जोशनामयी साहू W/O सुवास चंद्र साहू ()
30	1608	निजी	घरबारी	0.013	अछूतानंद राउट S/O नाबाघन राउट ()
31	1609	निजी	घरबारी	0.0109	पद्मनाभ राउट ,प्रफुल्ला कुमार राउट ,सुदाम चरण राउट ,अछूतानंद राउट S/O नाबाघन राउट ()
32	1610	निजी	घरबारी	0.0202	सशिमिरा नायक W/O लष्मीधर नायक ()
33	1611	निजी	घरबारी	0.0445	प्रवाकर नायक S/O सुदर्शन नायक ,सेबतिलता नायक W/O उमाकांत पत्र ,सशिमिरा नायक W/O लष्मीधर नायक

					()
34	1629	निजी	घरबारी	0.0384	मालती सेनापति W/O गोबर्धन सेनापति ()
35	1630	निजी	पतित	0.0162	धनेश्वर बिस्वाल S/O मंदार बिस्वाल ()
36	1631	निजी	घरबारी	0.0053	दसरथि साहू S/O सिद्धनाथ साहू ()
37	1632	निजी	घरबारी	0.013	रहस्य बिहारी मोहपात्रा S/O गणनाथ मोहपात्रा ()
38	1650	निजी	सरद जल -२	0.0202	मालती मंजरी साहू W/O गंगाधर साहू ,कल्पतरु साहू S/O गंगाधर साहू ()
39	1651	निजी	सरद जल -२	0.0121	नाबाघन स्वयं S/O परिखित स्वयं ,वासुदेव बिस्वाल S/O वृन्दावन बिस्वाल ,सरत चंद्र बिस्वाल S/O दुर्ब चरण बिस्वाल ()
40	1653	निजी	सरद -२	0.004	साशिवुसन दस ,सरत चंद्र दस ,सिसिर कुमार दस S/O भागीरथी दस ,सवितरणी मोहंती W/O प्रमोद कुमार मोहंती ()
41	1654	निजी	घरबारी	0.0121	नाबाघन स्वयं S/O परिखित स्वयं ()
42	1655	निजी	सरद जल -२	0.0324	सुका बिस्वाल W/O मायाधर बिस्वाल ()
43	1657	निजी	घरबारी	0.0243	सशंका सेखर पांडा ,सरोज कुमार पांडा S/O विद्याधर पांडा ()
44	1658	निजी	सरद जल -२	0.004	नरसिंह चरण सेनापति S/O दसरथि सेनापति ()

45	1663	सरकारी	रास्ता	0.0142	सरबसाधरण ()
46	1664	सरकारी	नयनजोरी	0.0101	सरबसाधरण ()
47	1665	निजी	घरबारी	0.0121	नरसिंह चरण सेनापति S/O दसरथि Senapati, किस्मत २ एना ,गोपीनाथ सेनापति ,किस्मत १ एना ,लोकनाथ सेनापति ,किस्मत १ एना S/O श्याम सुन्दर सेनापति ,भगवान सेनापति S/O दसरथा सेनापति ,किस्मत ४ एना ,बरतुहारी सेनापति S/O दुरजोधन सेनापति ,किस्मत २ एना ,गौरंगा सेनापति S/O डाइटरी सेनापति ,किस्मत ४ एना ,सम्पद सेनापति S/O सुकदेव सेनापति ,किस्मत १ एना ,दीनबंधु सेनापति S/O इंद्रमणि सेनापति ,किस्मत १ एना ()
48	1666	निजी	सरद जल -२	0.0243	नृसिंह चरण सेनापति S/O दसरथी सेनापति ,किस्मत २ एना ,गोपीनाथ सेनापति ,किस्मत १ एना ,लोकनाथ सेनापति ,किस्मत १ एना S/O श्याम सुंदरा सेनापति ,भगवान सेनापति S/O दसरथि सेनापति ,किस्मत २ एना ,सुरेंद्र चंद्र सेनापति ,कमलकांत सेनापति ,सुभकांता सेनापति S/O भगवान सेनापति ,किस्मत ८ एना , सम्पद सेनापति W/O सुकदेव सेनापति ,किस्मत १ एना , दीनबंधु सेनापति S/O इंद्रमणि सेनापति ,किस्मत १ एना ()
49	1669	निजी	सरद जल -२	0.0243	सुरेश चंद्र सेनापति S/O भगवान सेनापति ()
50	1670	निजी	घरबारी	0.0081	सन्तिलाता समल W/O बेघर समल

					()
	गांव का नाम: नारायणपुर-76				
51	518	सरकारी	गोचर	0.4128	रक्षित ()
52	556	सरकारी	गोचर	0.0202	रक्षित ()
53	581	सरकारी	ूर्णनात योजना योग्य	0.0081	रक्षित ()
54	593	सरकारी	गोचर	0.0202	रक्षित ()
55	632	सरकारी	गोचर	0.0162	रक्षित ()
56	639	सरकारी	गोचर	0.1983	रक्षित ()
	गांव का नाम: पुरीपड़ा - 74				
57	368	सरकारी	गोचर	0.0971	सलाणीअ इरीगेशन डिपार्टमेंट ,पुरीपाड़ा माइनर ()
58	403	सरकारी	गोचर	0.0121	सलाणीअ इरीगेशन डिपार्टमेंट ,पुरीपाड़ा माइनर ()
59	404	सरकारी	गोचर	0.1093	सलाणीअ इरीगेशन डिपार्टमेंट ,पुरीपाड़ा माइनर ()
60	90	सरकारी	डंडा (गोदंडा)	0.0121	सबसाधारण ()
61	91	सरकारी	रास्ता (ग्राम्य रास्ता)	0.0065	सबसाधारण ()
62	92	सरकारी	डंडा (गोदंडा)	0.1275	सबसाधारण ()
	गांव का नाम: रामचन्द्रपुर - 78				
63	461	सरकारी	नयनजोरी	0.0068	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ()

64	462	सरकारी	सड़क	0.004	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ()
65	463	सरकारी	नयनजोरी	0.0048	Puपब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ()
66	465	सरकारी	बस्ती योग्य	0.004	राखित ()
गांव का नाम: शासन-32					
67	1	सरकारी	गोचर	0.3723	राखित ()
68	477	सरकारी	गोचर	0.0243	राखित ()
69	478	सरकारी	गोचर	0.004	राखित ()
70	481	सरकारी	गोचर	0.0162	राखित ()
71	495	सरकारी	पतित	0.0364	इरीगेशन डिपार्टमेंट ()
			कुल	2.8521	

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D5]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 19th February, 2020

S.O. 792(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1013(E) dated 22th February 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH16 (old NH-5) on the stretch of land from Km 62.000 to Km 136.500 (Chandikhole -Bhadrak Section) in the district of BHADRAK in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prameya” and “Dharitri” both dated 16th March 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule annexed here to should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH16 (old NH-5) on the stretch of land from Km 62.000 to Km 136.500 (Chandikhole -Bhadrak Section) in the district of BHADRAK in the state of ODISHA

State: ODISHA		District: BHADRAK			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhandaripokhari				
	Village: Benipur-117				
1	381	Government	Gochar	0.0898	Rakhit
2	389	Government	Gochar	0.0688	Rakhit
	Village: Bhutia-77				
3	111	Government	Urnat Yogana Yogya	0.0202	Rakshit
4	118	Government	Urnat Yogana Yogya	0.1416	Rakshit
5	119	Government	Basti Yogya	0.1619	Rakshit
6	177	Government	Basti Yogya	0.1943	Rakhita
7	85	Government	Nayanjori	0.0405	Public Works Department
	Village: Dakshinabar-42				
8	1142	Government	Rasta	0.0202	Public Works Department
9	1162	Government	Nayanjori	0.0081	Irrigation Department
10	1163	Government	Canal	0.0081	Irrigation Department
11	1267	Government	Patit	0.0028	Abadya Jogya Anabadi
12	1269	Government	Nayanjori	0.0081	Irrigation Department
13	1270	Private	jalasaya -2	0.0101	Harmohan Mohapatra S/o Siba Charan Praharaj
14	1275	Government	Bandha	0.0024	Irrigation Department
15	1276	Government	Canal	0.0178	Irrigation Department
16	1277	Government	Bandha	0.0081	Irrigation Department
17	1282	Government	Nayanjori	0.0061	Irrigation Department
18	1283	Government	Nayanjori	0.0061	Irrigation Department
19	1284	Government	Gochar	0.0113	Rakhit
20	1344	Government	Patit	0.002	Irrigation Department
21	1345	Private	Sarad jal -2	0.0121	Jagabandhu Dash ,Gangadhar Dash ,Nursingh Charan Dash S/o Duryadhan Dash ,Ramesh Chandra Dash S/o Gangadhar Dash ,Minarani Nayak W/o Rabindra Nayak ,Umesh Chandra DashS/o Gangadhar Chandra Dash ,Pratima Barik W/o Uttam

					Kumar Barik ,Mami Sahoo W/o Madhusudan Sahoo ,Padmabati Behera W/o Santosh Kumar Sahoo
22	1347	Private	Sarad jal -2	0.004	Santosh Kumar Dash S/o Gayadhar Dash ,Nirupama Dash W/o Santhosh Kumar Dash ,Binapani Dash D/o Ratnakar Dash ,Ramesh Chandra Dash S/o Gangadhar Dash
23	1551	Private	Gharabari	0.0336	Jayshree Nayak W/o Kumarbar Nayak
24	1553	Private	Gharabari	0.0162	Abhiram Swain S/o Mahendra Swain ,kismat 8 anna ,Jayshree Nayak W/o Kumarbar Nayak ,kismat 8 anna
25	1554	Private	Sarad jal -1	0.0081	Rasbihari Sahoo S/o Banchhanidi Sahoo ,
26	1603	Government	Nayanjori	0.0053	Irrigation Department
27	1604	Government	Canal	0.0069	Irrigation Department
28	1605	Government	Bandha	0.004	Irrigation Department
29	1607	Private	Gharabari	0.0567	Joshnamayee Sahoo W/o Subas Chandra Sahoo
30	1608	Private	Gharabari	0.013	Achutananda Rout S/o Nabaghan Rout
31	1609	Private	Gharabari	0.0109	Padmanav Rout ,Prafulla Kumar Rout ,Sudam Charan Rout ,Achutananda Rout S/o Nabaghan Rout
32	1610	Private	Gharabari	0.0202	Sashimira Nayak W/o Laxmidhar Nayak
33	1611	Private	Gharabari	0.0445	Pravakar Nayak S/o Sudarshan Nayak ,Sebatilata Nayak W/o Umakanta Patra ,Sashimira Nayak W/o Laxmidhar Nayak
34	1629	Private	Gharabari	0.0384	Malati Senapati W/o Gobardhan Senapati
35	1630	Private	Patit	0.0162	Dhaneswar Biswal S/o Mandar Biswal
36	1631	Private	Gharabari	0.0053	Dasarathi Sahoo S/o Sidhanath Sahoo
37	1632	Private	Gharabari	0.013	Rahas Bihari Mohapatra S/o Gananath Mohapatra
38	1650	Private	Sarad Jal -2	0.0202	Malati Manjari Sahoo W/o Gangadhar Sahoo ,Kalpataru Sahoo S/o Gangadhar Sahoo
39	1651	Private	Sarad jal -2	0.0121	Nabaghan Swain S/o Parikhrit Swain ,Basudev Biswal S/o Brundaban Biswal ,Sarat Chandra Biswal S/o Dhurb Charan Biswal
40	1653	Private	Sarad -2	0.004	Sashibusan Das ,Sarat Chandra Das ,Sisir Kumar Das S/o Bhagirathi Das ,Sabitarani Mohanty W/o Pramod Kumar Mohanty
41	1654	Private	Gharabari	0.0121	Nabaghan Swain S/o Parikhrit Swain
42	1655	Private	Sarad jal -2	0.0324	Suka Biswal W/o Mayadhar Biswal

43	1657	Private	Gharabari	0.0243	Sashanka Sekhar Panda ,Saroj Kumar Panda S/o Bidyadhar Panda
44	1658	Private	sarad jal -2	0.004	Nursingh Charan Senapati S/o Dasarathi Senapati
45	1663	Government	Rasta	0.0142	Sarbasadharan
46	1664	Government	Nayanjori	0.0101	Sarbasadharan
47	1665	Private	Gharabari	0.0121	Nursingh Charan Senapati S/o Dasarathi Senapati ,kismat 2 anna ,Gopinath Senapati ,kismat 1 anna ,Lokanath Senapati ,kismat 1 anna S/o Shyam Sundar Senapati ,Bhagaban Senapati S/o Dasaratha Senapati ,kismat 4 anna ,Bartuhari Senapati S/o Durjodhan Senapati ,kismat 2 anna ,Gouranga Senapati S/o Daitari Senapati ,kismat 4 anna ,Sampad Senapati S/o Sukadev Senapati ,kismat 1 anna ,Dinabandhu Senapati S/o Indramani Senapati ,kismat 1 anna
48	1666	Private	Sarad Jal -2	0.0243	Nrusingh Charan Senapati S/o Dasarathi Senapati ,kismat 2 anna ,Gopinath Senapati ,kismat 1 anna ,Loknath Senapati ,kismat 1 anna S/o Shyam Sundra Senapati ,Bhagaban Senapati S/o Dasarathi Senapati ,kismat 2 anna ,Surendra Chandra Senapati ,Kamalkanta Senapati ,Subhakanta Senapati S/o Bhagaban Senapati ,kismet 8 anna, Sampad Senapati W/o Sukadev Senapati ,kismet 1 anna, Dinabandhu Senapati S/o Indramani Senapati ,kismet 1 anna
49	1669	Private	Sarad jal -2	0.0243	Suresh Chandra Senapati S/o Bhagaban Senapati
50	1670	Private	Gharabari	0.0081	Santilata Samal W/o Baidhar Samal
Village: Narayanpur-76					
51	518	Government	Gochar	0.4128	Rakshit
52	556	Government	Gochar	0.0202	Rakshit
53	581	Government	Urnat Yogana Yogya	0.0081	Rakshit
54	593	Government	Gochar	0.0202	Rakshite
55	632	Government	Gochar	0.0162	Rakshit
56	639	Government	Gochar	0.1983	Rakshit
Village: Puripada-74					
57	368	Government	Gochar	0.0971	Salania Irrigation Department ,Puripada Minor
58	403	Government	Gochar	0.0121	Salania Irrigation Department ,Puripada Minor

59	404	Government	Gochar	0.1093	Salania Irrigation Department ,Puripada Minor
60	90	Government	Danda (Godanda)	0.0121	Sarbasadharan
61	91	Government	Rasta (Gramya Rasta)	0.0065	Sarbasadharan
62	92	Government	Danda (Godanda)	0.1275	Sarbasadharan
Village: Ramachandrapur-78					
63	461	Government	Nayanjori	0.0068	Public Works Department
64	462	Government	Sadak	0.004	Public Works Department
65	463	Government	Nayanjori	0.0048	Public Works Department
66	465	Government	Basti Yogya	0.004	Rakhit
Village: Shasan-32					
67	1	Government	Gochar	0.3723	Rakhit
68	477	Government	Gochar	0.0243	Rakhit
69	478	Government	Gochar	0.004	Rakhit
70	481	Government	Gochar	0.0162	Rakhit
71	495	Government	Patit	0.0364	Irrigation Department
			TOTAL	2.8521	

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D5]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.